



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ, 1941 (श०)

संख्या- 74 राँची, शुक्रवार,

31 जनवरी, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची

संकल्प

22 जनवरी, 2020

संख्या-5/आरोप-1-94/2018-458 (HRMS)-- श्री भोलानाथ लागुरी, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-प0 सिंहभूम), तत्कालीन जिला अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-365/स्था0, दिनांक 06.06.2018 द्वारा प्रपत्र-‘क’ में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध बिना निविदा आमंत्रित किये अथवा दर निर्धारण किये स्थानीय बाजार से सामग्री क्रय करने, संचिका पर सामग्री आपूर्तिकर्त्ता मे0 यदुवंशी गोरस भंडार, चतरा के लिए अनुमोदन एवं कार्यादेश निर्गत नहीं करने के बावजूद स्वीकृति प्राप्त करने, आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत विपत्र पर वरीय पदाधिकारी को गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन समर्पित करने एवं पूर्व सूचना के बावजूद जाँच की तिथि दिनांक 27.10.2016 को मुख्यालय से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6191, दिनांक 13.08.2018 द्वारा श्री लागुरी से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्री लागुरी के पत्र, दिनांक 28.01.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री लागुरी के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2025, दिनांक 06.03.2019 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गयी। किन्तु उपायुक्त, चतरा से मंतव्य अप्राप्त रहा, अतः मामले के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-2568 (HRMS), दिनांक 06.06.2019 द्वारा श्री लागुरी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की

गई। इसी क्रम में, उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-253/स्था0, दिनांक 11.06.2019 द्वारा श्री लागुरी के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसे विभागीय पत्रांक-6233, दिनांक 02.08.2019 द्वारा इसे विभागीय कार्यवाही में सम्मिलित करने हेतु संचालन पदाधिकारी को उपलब्ध करायी गयी।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-309, दिनांक 22.11.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री लागुरी के विरुद्ध प्रपत्र-क में प्रतिवेदित आरोप सं0-4 को आंशिक रूप से सही प्रतिवेदित किया गया।

अतः समीक्षोपरांत, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री लागुरी के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BHOLA NATH LAGURI 110091197637	श्री भोलानाथ लागुरी, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-प0 सिंहभूम), तत्कालीन जिला अवर निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रभारी जिला पंचायती राज पदाधिकारी, चतरा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के अन्तर्गत “निन्दन” का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972
